



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 2007/फाल्गुन 18, 1928

No. 64]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2007/PHALGUNA 18, 1928

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2007

दिनांक 18 जनवरी, 2007 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1

में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 14 के लिए परिशिष्ट

सं. 16-70/2004-डी.डी. III.—सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 32 के उपबंधों के अनुसरण में दिनांक 8 फरवरी, 2005 को अपर सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। अनुबंध-I के रूप में यथा उल्लिखित आदेश की प्रति इसके साथ प्रकाशित की जा रही है। इसे 18 जनवरी, 2007 को प्रकाशित अधिसूचना के साथ पढ़ा जाए।

आशीष कुमार, उप महानिदेशक

अनुबंध-I

आदेश

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2005

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 32 में यह निर्धारित है कि उपयुक्त सरकार :—

- (क) स्थापनाओं में पदों की पहचान करेगी जिसे विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है;
- (ख) आवधिक अंतरालों पर जो तीन वर्ष से अधिक न हों, पहचान किए गए पदों की समीक्षा करेगी और प्रौद्योगिकी में विकास को ध्यान में रखते हुए सूची को अद्यतन करेगी।

2. अधिनियम की धारा 32 के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने 1986 में पहचान की गई पदों की समीक्षा की थी तथा भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापनाओं में विभिन्न विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त सभी समूहों में पहचान किए गए पदों की संशोधित सूची जून, 2001 में अधिसूचित की गई थी।

3. चूंकि, प्रत्येक तीन वर्ष के बाद पहचान की गई पदों की समीक्षा के लिए अधिनियम की धारा 32 में प्रावधान है। इसलिए भारत सरकार एतद्वारा इस आदेश के जारी होने की तारीख से निम्नलिखित सदस्यों से युक्त इसके मंत्रालयों/विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले समूह क, ख, ग तथा घ पदों में पहचान/समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन करती है; नामतः :—

- (1) अपर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

— अध्यक्ष

- (2) भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों से प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के नीचे के रैंक का न हो — सदस्य
- (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली — सदस्य
- (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली — सदस्य
- (ग) लोक उद्यम विभाग — सदस्य
- (घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (विकलांगता प्रभाग) — सदस्य
- (3) संबंधित मंत्रालय/विभाग का प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे का न हो, जिससे संबंधित नौकरियों की पहचान और संबंधित मामलों की समीक्षा की जानी है — सदस्य
- (4) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली — सदस्य
- (5) विकलांगता पर राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधि
- (क) निदेशक, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, 116, राजपुर रोड, देहरादून — सदस्य
- (ख) निदेशक, अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, कं.सी मार्ग, बांद्रा रिकलेमेशन (पश्चिम), मुम्बई — सदस्य
- (ग) निदेशक, पं. दीनदयाल राष्ट्रीय विकलांग जनसंस्थान, 4, विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली — सदस्य-सचिव
- (6) विकलांगता संबंधी शीर्ष गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि
- (क) मेजर एच. पी. एस. अहलुवालिया (सेवानिवृत्त) भारतीय मेरुदंड श्रुति केंद्र, सेक्टर-सी, बसंत कुंज, नई दिल्ली, चलन विकलांगता का प्रतिनिधित्व करने वाले — सदस्य
- (ख) डॉ. ब्रदर जार्ज, मौन्ट फोर्ड शिक्षा केंद्र, दनकरारे, तुरा, मेघालय, श्रवण विकलांगता का प्रतिनिधित्व करने वाले — सदस्य
- (ग) श्री दीपेन्द्र मीनोचा, प्रबंधक, प्रौद्योगिकी केंद्र, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संघ, सेक्टर-5, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, दृष्टिबाधितार्थ का प्रतिनिधित्व करने वाले — सदस्य
4. यह समिति सदस्यों का सह-विकल्प कर सकती है।
5. नियमानुसार और गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा-भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान पं. दीनदयाल विकलांग जनसंस्थान, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा।
6. यह समिति शीघ्र अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी।

जयति चंद्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2007

**Addendum to Notification No. 14 Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1,
Dated the 18th January, 2007**

No. 16-70/2004-DD III.—Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India in pursuance of the provisions of Section 32 of Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996), had constituted an Expert Committee on the 8th February, 2005 under the Chairmanship of Additional Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, copy of the Order mentioned as Annexure-I is being published herewith. This may be read along with the Notification published on January 18, 2007.

ASHISH KUMAR, Dy. Director General

ANNEXURE-I

ORDER

New Delhi, the 8th February, 2005

Section 32 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 stipulates Appropriate Governments shall :—

- identify posts, in the establishments, which can be reserved for the persons with disability;
- at periodical intervals, not exceeding three years, review the list of posts identified and up-date the list taking into consideration the developments in technology.

2. In pursuance to Section 32 of the Act, an Expert Committee constituted by the Government had reviewed the identification of posts done in 1986 and a revised list of identified posts in all Groups in the establishments of Government of India and Public Sector Undertakings had been notified as suitable for persons with different disabilities in June, 2001.

3. Since the Section 32 of the Act provides for review of the list of identified posts after every three years. Government of India hereby constitutes, with effect from the date of issue of this order, the Expert Committee to identify/review the posts in Group A, B, C and D to be reserved for the Persons with Disabilities in its Ministries/ Departments and Public Sector Undertakings consisting of the following members, namely :—

- (1) Additional Secretary,
Ministry of Social Justice and Empowerment. — Chairman
- (2) Representatives, not below the rank of Joint Secretary from the following
Ministries/Departments of Government of India : — Member
 - (a) Department of Personnel and Training North Block, New Delhi — Member
 - (b) Ministry of Health and Family Welfare Nirman Bhavan, New Delhi — Member
 - (c) Department of Public Enterprises — Member
 - (d) Ministry of Social Justice and Empowerment (Disability Division) — Member
- (3) Representative, not below the rank of Joint Secretary of the Ministry/Department
concerned in respect of which Identification of jobs and related matters are to be — Member
reviewed
- (4) Director General of Employment and Training Shram Shakti Bhavan, New Delhi — Member
- (5) Representatives of National Institutes on Disability
 - (a) Director, National Institute for the Visually Handicapped, 116, Rajpur Road, — Member
Dehradun
 - (b) Director, Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, — Member
K.G. Marg, Bandra Reclamation (West), Mumbai
 - (c) Director, Pt. Deen Dayal National Institute for the Physically — Member-Secretary
Handicapped, 4, Vishnu Digambar Marg, New Delhi
- (6) Representatives of Apex non-Governmental Organisations for the Disabilities
 - (a) Major H.P.S. Ahluwalia (Retd.) Indian Spinal Injury Centre, Sector-C, — Member
Vasant Kunj, New Delhi, Representing the Locomotor disability
 - (b) Dr. Brother George, Mont Ford Centre for Education, Danakgre, Tura, — Member
Meghalaya-79401, Representing hearing impairment
 - (c) Shri Dipendera Minocha, Manager, Technology Centre, — Member
National Association for the Blind, Sector-5, R.K. Puram, New Delhi
Representing visually impaired

4. The Committee may co-opt. members.

5. TA/DA to the non-official Members will be paid as per rules by the Pt. Deen Dayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped, New Delhi.

6. The Committee will submit its report to the Government at the earliest.

Smt. JAYATI CHANDRA, Jt. Secy.